

केंद्रीय विद्यालय संगठन
आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़
हिंदी माह आयोजन , सितंबर 2019



श्री रनवीर सिंह , उपायुक्त एवं निदेशक दीप प्रज्वलित कर हिंदी दिवस का शुभारम्भ करते हुए

केंद्रीय विद्यालय संगठन , आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , चंडीगढ़ में दिनांक 01.09.2019-30.09.2019 तक राजभाषा हिंदी में कामकाज के संकल्प के साथ हिंदी माह का आयोजन किया गया। 14 सितंबर को रनवीर सिंह , उपायुक्त एवं निदेशक महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर हिंदी दिवस आयोजन का आरंभ किया गया । इस अवसर पर कार्यशाला में भाग लेने आए प्राथमिक शिक्षकों हेतु कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपायुक्त महोदय द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित किया गया और राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा कविता पाठ प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया ।



श्री रनवीर सिंह , उपायुक्त एवं निदेशक प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



इस दौरान यूनिकोड हिंदी टंकण , हिन्दी सामान्य ज्ञान, निबंध लेखन, प्रशासनिक शब्दावली /वाक्यांश एवं टिप्पण लेखन, अनुच्छेद लेखन, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से कर्मचारियों के भीतर कार्यालयी कार्य को हिंदी में करने के संकोच को दूर करने का प्रयास किया गया ।

स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी हेतु आयोजित कार्यशाला के अंतर्गत अतिथि वक्ता के रूप में डॉ . गुरमीत सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पंजाब विश्व विद्यालय द्वारा 'राजभाषा के समक्ष चुनौतियाँ' विषय पर व्याख्यान दिया गया । व्याख्यान के साथ ही सभी प्रतिभागियों ने राजभाषा हिंदी में कार्य को विस्तार किस प्रकार दिया जाए विषय पर भी अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए ।



डॉ.गुरमीत सिंह, हिंदी विभागाध्यक्ष पंजाब विश्वविद्यालय,चंडीगढ़

कार्यालय कर्मचारियों हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला के अंतर्गत उन्हें संविधान में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते ही राजभाषा अधिनियम 1963 , राजभाषा नियम 1976 की जानकारी प्रदान की गई । कार्यालयी पत्राचार की भाषा व प्रशासनिक शब्दावली से परिचित करवाया गया । टिप्पण लेखन के बारे में बताया गया टिप्पण लेखन का अभ्यास करवाया गया और उन्हें बताया गया कि वे हिंदी में काम करने के लिए राजभाषा विभाग की वैब साईट पर उपलब्ध ई महाशब्द कोश और मंत्र मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर की सहायता ले सकते हैं ।



दिनांक 30.09.2019 को हिन्दी माह के समापन के अवसर पर प्रतियोगिता विजेताओं के नाम घोषित किए गए । श्री रनवीर सिंह, उपायुक्त एवं निदेशक द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी को शुभकामना देते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अपना सारा कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया ।

